



GENESIS
FINANCE
COMPANY
LIMITED

4 MMTC/STC MARKET, GEETANJALI, NEW DELHI-110 017. PHONE: 26691132, 26691795, 26691830. FAX: 26691676. E-mail: genesis599@gmail.com

Email ID: genesis599@gmail.com / cs.gfcl@gmail.com

Website: www.genesisfinance.net

Phone: 011-26691132

CIN-L65910DL1990PLC040705

14th February, 2020

To,
The Listing Department,
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62,
G-Block, Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400098

Dear Sir,

Sub.: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [“SEBI (LODR)”] – Newspaper Publication of Financial Results

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR), and in continuation to our letter dated 13th February, 2020 with regards to unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2019, please find enclosed herewith, the extracts of unaudited Financial Results published on Friday, 14th February, 2020 in the newspapers “Financial Express” (English) and “Jansatta” (Hindi).

You are requested to kindly take the above disclosure on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For and on behalf of
Genesis Finance Company Limited


Gopal Bisht
(Director & Chief Financial Officer)
DIN: 00597160



Address: 705 A/9, Ward No.3, Flat No.3,
Mehrauli, Delhi-110030

Encl.: Extracts of newspaper advertisements as stated above.

FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED
CIN No. L72100DL1993PLC179154
Reg. Office : 205, 2nd Floor, Agarwal Chamber IV, 27, Veer Sawarkar Block, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-92
Corporate Office : Plot No. 83, NSEZ, Noida Dadri Road, Phase-II, Gautam Budh Nagar, Noida- 201305

CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS OF FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2019 PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS) (Rs. in Lacs)

Particulars	QUARTER ENDED	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	DEC 31, 2019 UNAUDITED	MAR 31, 2019 AUDITED	MAR 31, 2018 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	995.76	4,040.36	3,250.39
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	(267.79)	(16,427.88)	(5,836.22)
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	(267.79)	(16,427.88)	(5,836.22)
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	1,765.98	2,992.60	18,790.85
Earnings Per Share (Rs.)* (Not annualised)			
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	(0.02)	(0.96)	(0.34)
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	(0.02)	(0.96)	(0.34)
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	(0.02)	(0.96)	(0.34)
Diluted after Extraordinary items (in Rs.)	(0.02)	(0.96)	(0.34)

Notes
1) Standalone Information

Particulars	QUARTER ENDED	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	DEC 31, 2019 UNAUDITED	MAR 31, 2019 AUDITED	MAR 31, 2018 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	971.45	3,962.00	2,905.16
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	41.84	178.61	302.16
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	41.84	178.61	302.16
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	0.002	0.010	0.018
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	0.002	0.010	0.018
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	0.002	0.010	0.018
Diluted after Extraordinary items (in Rs.)	0.002	0.010	0.018

2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites on BSE (www.bseindia.com), on NSE (www.nseindia.com) and on the Company websites (www.fcsitd.com).

By order of the Board of Directors
For FCS Software Solutions Ltd
Sd/-
(Director)

Place : Noida
Date : Feb 13, 2020

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED
CIN: L65910DL1990PLC040705
Regd. Off: 4 MMT/STC MARKET, GEETANJALI, NEW DELHI - 110017
E-mail: gopalbishtgfc@gmail.com | Website: www.genesisfinance.net | Ph: 011-26691132

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended on 31st December, 2019 (Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
		31.12.2019 (Unaudited)	on 31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	562.14	1,555.40	270.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	386.82	903.65	24.49
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	386.82	903.65	24.49
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	284.12	657.17	17.67
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	284.12	657.17	17.67
6	Equity Share Capital	4,639.71	4,639.71	4,639.71
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Financial Year 2018-19)	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): Basic: Diluted:	0.61 0.61	1.42 1.42	0.04 0.04

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website (www.genesisfinance.net) as well as on stock exchange's website (www.mseil.in).
2. The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ('the Act') read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Any applicable guidance/clarification/direction issued by the Reserve Bank of India or other regulations are implemented as and when they are issued/applicable.
3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th February, 2020.

On Behalf of the Board
For Genesis Finance Company Limited
Sd/-
Naresh Garg
(Managing Director)
DIN:00916814

Place : New Delhi
Date : 13.02.2020

SANGHVI FORGING & ENGINEERING LTD.
Regd. Office: 244/6-7, G.I.D.C. Ind. Estate, Waghodia - 391 760 Dist. Vadodra, India. Ph: 02668 - 673100 Fax: 02668-673135
CIN: L28910GJ1989PLC012015
E-mail: contact@sanghviforge.com; Website: www.sanghviforge.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Nine Months Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended
		Dec. 31, 2019	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2019	Dec. 31, 2019	Dec. 31, 2018	Dec. 31, 2019
1	Total income from operations (net)	1343.8	1811.7	5026.0	1374.0	2137.0	6394.4
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-219.8	46.8	220.9	-235.2	-0.5	-2006.2
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-219.8	46.8	220.9	-235.2	-0.5	-2006.2
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-219.8	46.8	220.9	-235.2	-0.5	-2006.2
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-219.8	46.8	220.9	-235.2	-0.5	-2003.8
6	Equity Share Capital	1489.2	1489.2	1489.2	1489.2	1489.2	1489.2
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (before and After extraordinary items) (of ₹10/- each) : (a) Basic (b) Diluted	-1.5 -1.5	0.3 0.3	1.5 1.5	-1.6 -1.6	0.0 0.0	-13.5 -13.5

Notes:
1. The above results have been subjected to "Limited Review" by the statutory Auditors of the Company.
2. Bank of Baroda has filed application before NCLT, Ahmedabad under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy code, 2016 on 26th April, 2018. The Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been initiated against the company vide order passed by NCLT, Ahmedabad dated 30th August, 2019. The Hon'ble NCLT, Ahmedabad has appointed Mr. Chandra Prakash Jain (IP Registration No. : IBB/IFA-001/JP-P00147/2017-18/10311) as Interim Resolution Professional.
3. Post commencement of the CIRP process, the Company is continuing to operate as a going concern in terms of the code.
4. The Company has received One Time Settlement (OTS) Sanction Letters from our Bankers SBI & BOB Dated. 03/10/2019. As the Company is in Process of Settling the dues, the company has not provided the interest of Q1 Rs.358.89/- (In Lakhs) & Q2 Rs. 358.89/- (In Lakhs) & Q3 Rs. 358.89/- (In Lakhs) aggregating of Rs.1076.64/- (In Lakhs) FY. 2019-20.
5. Ind AS 116 having become effective from 1st April 2019 and the impact of the same is negligible for the company.
6. The company has only one reportable segment i.e. Forging & Fittings.
7. Figures of the previous periods have been regrouped / reclassified / rearranged, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

For Sanghvi Forging & Engineering Ltd.
Sd/-
Vikram B. Sanghvi
Chief Financial Officer

Place : Vadodra
Date : 13th February, 2020

ASSOCIATED FINMAN LIMITED
Regd. Office: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments New Rohtak, Road New Delhi-110005
Email id: rkked@yahoo.co.in; Tel No.: +91 113296321
CIN: L65910DL1984PLC018871; Website: www.associated.net.in
Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019 (Amount in Rs.)

Particular	3 Months ended	Year to Date figures for current period ended	Corresponding 3 Months ended in the previous year
	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2018 Un-Audited
Total income from operations (net)	-	-	-
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(55234)	(198690)	(25153)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(55234)	(198690)	(25153)
Paid-up Equity Share Capital	9053280	9053280	9053280
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.06)	(0.22)	(0.03)
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.06)	(0.22)	(0.03)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website: www.mseil.in

For Associated Finman Limited
Sd/-
(Dhiraj Gupta)
Managing Director

Place: Delhi
Date: 13.02.2020

NEWAGE MARKETING LIMITED
Regd. Office: 59/17, Bahubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi-110005
Email id: rkked@yahoo.co.in; Tel No.: +91 11-28711851
CIN: L51909DL1984PLC018695; Website: www.newagemarketing.in
Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019 (Amount in Rs.)

Particular	3 Months ended	Year to Date figures for current period ended	Corresponding 3 Months ended in the previous year
	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2019 Un-Audited	31.12.2018 Un-Audited
Total income from operations (net)	-	-	-
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(54184)	(197640)	(25265)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(54184)	(197640)	(25265)
Paid-up Equity Share Capital	8358310	8358310	8358310
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.06)	(0.24)	(0.03)
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted (in Rupees)	(0.06)	(0.24)	(0.03)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website: www.mseil.in

For Newage Marketing Limited
Sd/-
(Manish Arora)
Managing Director

Place: Delhi
Date: 13.02.2020

pacl Punjab Alkalies & Chemicals Limited
CIN: L24119CH1975PLC003607
Regd. Office: SCO 125-127, Sector 17-B, CHANDIGARH 160 017

Extract of Unaudited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2019 (Rs. in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Financial Year Ended 31.03.2019 (Audited)
		31.12.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	
1	Total Income from operations (Net)	5936.02	7399.99	9722.4	22497.01	28585.87
2	Other Income	694.45	234.49	133.52	1053.48	352.12
3	Total Income	6630.47	7634.48	9855.92	23550.49	28937.99
4	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	58.30	(276.01)	336.54	1301.10	3900.63
5	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	58.30	(276.01)	336.54	1301.10	3900.63
6	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.15)	(135.01)	336.54	1055.10	3603.00
7	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/loss) and other comprehensive income (after tax)	13.57	(291.43)	279.68	902.58	3659.48
8	Paid up Equity Shares Capital (Face Value Rs.10/-)	2710.48	2710.48	2710.48	2710.48	2710.48
9	Reserves excluding Revaluation Reserves	-	-	-	-	51.55
10	Earnings/(Loss) per Share (Rs.) (Not Annualised): a) Basic b) Diluted	(0.02) (0.02)	(0.50) (0.50)	1.24 1.24	3.89 3.89	13.28 13.28
						20.58 20.58

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board in its meeting held on 13th February, 2020.
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 is available on the BSE Limited's Website i.e. www.bseindia.com.
3. The figures of the previous period have been regrouped/ reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of the Board
Sd/-
(MANJIT SINGH BRAR, IAS)
Managing Director

Place : Chandigarh
Date : 13th February, 2020

PEARL POLYMERS LIMITED
CIN No. L25209DL1971PLC005535
Regd. Office : A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, INDIA
Tel. No. : +91-11-47385300, Fax : +91-11-47480746
Email : pearl@pearlpet.net, Web : www.pearlpet.net

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2019 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars	For quarter ended			For Nine Months Ended		
		31.12.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	3,505.98	3,235.84	4,584.06	10,912.07	(7,587.60)	18,092.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(296.92)	(435.55)	(130.81)	(920.98)	(615.23)	(631.34)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(296.92)	(435.55)	(130.81)	(920.98)	(615.23)	(631.34)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(296.92)	(435.55)	(130.81)	(920.98)	(615.23)	(486.44)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(296.92)	(434.26)	(130.30)	(918.39)	(614.28)	(487.76)
6	Equity Share Capital	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	2,858.53
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	(1.76) (1.76)	(2.59) (2.59)	(0.78) (0.78)	(5.47) (5.47)	(3.66) (3.66)	(2.89) (2.89)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarter and Nine Months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 is available on the Stock Exchange websites: www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website: www.pearlpet.net.

For PEARL POLYMERS LIMITED
Sd/-
(Chand Sethi)
Chairman & Managing Director
DIN-00002944

Place: New Delhi
Date : 13th February, 2020

PUBLIC NOTICE
BEFORE THE REGISTRAR OF COMPANIES, NEW DELHI
In the matter of Limited Liability Partnership Act, 2008, Rule 17 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 AND
In the matter of ALITECH INDIA LLP
(LLPIN: AAG-0875)
having its Registered Office at FG-1/87C, Vikas Puri, New Delhi - 110018

APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that ALITECH INDIA LLP proposes to shift its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh" within the jurisdiction of "ROC, Kanpur, Uttar Pradesh".
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on MCA-21 Portal on (www.mca.gov.in) by filing inventor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the his/her interest and grounds of oppositions to the Registrar of Companies, NCT of Delhi at 4th Floor, FCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 within Twenty one days from the date of publications of this notice with a copy to the LLP at its Registered Office at the address mentioned below :-
FG-1/87C, Vikas Puri New Delhi - 110018
For & On Behalf of the Applicant
ALITECH INDIA LLP
Sd/-
AMIT KHERA
Designated Partner

Date : 14.02.2020
Place : New Delhi

SCHEDULE II "FORM B" PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF - STAR MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED

S. No.	Particulars	Date
1	Name of the Corporate Debtor	STAR MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
2	Date of Incorporation of corporate debtor	15-09-2005
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U14102DL2005PTC140753
5	Address of the registered office & principal office (if any) of corporate debtor	B - 22, First Floor, Chhattarpur Enclave, Phase - II, South West Delhi 110074
6	Date of Closure Of Insolvency	10-02-2020 As per order pronounced by Hon'ble NCLT
7	Liquidation Commencement	10-02-2020
8	Name, Address, Email Address, Telephone Number And The Registration Number Of The Liquidator	NARESH KUMAR BANSAL KD-138, FIRST FLOOR, PITAMPURA, DELHI - 110034. adv.naresh@gmail.com 011-46019763, 9810157418 IBBI/PA-002/IP-N00486/2017-18/11448
9	Last Date For Submission Of Claims	10-03-2020

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal NEW DELHI BENCH, COURT - II has ordered the commencement of liquidation of the STAR MINERAL RESOURCES PVT. LTD. on 10th Feb, 2020. The stakeholders of [STAR MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED] are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 10-03-2020, to the liquidator at the address mentioned against item 8. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Liquidator: NARESH KUMAR BANSAL
Date and Place: 14-02-2020, NEW DELHI

SURYA INDIA LIMITED
Regd. Office: B-1/H-3, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-44
CIN: L74899DL1985PLC039991; Email: cs@haldiram.com; website: www.suryaonline.com

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on December 31, 2019 (Amount in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
		31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	134.59	364.58	126.12
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	40.05	146.30	33.25
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	40.05	146.30	33.25
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax and after Exceptional and/or Extraordinary items	28.91	106.45	24.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	28.91	(76.19)	24.00
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	698.58	698.58	698.58
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 1. Basic: 2. Diluted:	0.41 0.41	(1.09) (1.09)	0.34 0.34

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.suryaonline.com).
2. The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 13.02.2020.
3. Previous quarterly/year figures have been re-grouped and re-arranged wherever necessary.
4. Total income from operations shown above does not include other incomes/losses.

By order of the Board of Directors
For Surya India Limited
Sd/-
Preeti Agarwal
Managing Director
DIN : 00011450

Place : New Delhi
Date : 13.02.2020

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED
Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg,

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड ऐलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

CIN: L0112UP1989PLC011004
पंजी. कार्यालय: ए-26, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया सिकन्दराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-203205
ई-मेल: secretarial@shrigangindustries.com, वेबसाइट: www.shrigangindustries.com

31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अंशकेंद्रित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अंशकेंद्रित)	31.12.2019 को समाप्त नौमाही (अंशकेंद्रित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अंशकेंद्रित)
1	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2.68	6.21	16.21
2	सामान्य संचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(111.74)	(265.66)	(48.08)
3	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(111.74)	(265.66)	(48.08)
4	अवधि के लिए कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	(111.74)	(265.66)	(48.08)
5	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु प्रत्येक)	793.00	793.00	793.00
6	रिजर्व (सत वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार पुनर्मुल्यांकित रिजर्व को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00
7	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पश्चात्) (प्रत्येक 10/- रु) (आरी और बंद संचालनों के लिए) (क) बेसिक (ख) डायल्यूटेड (ग) गैर वार्षिक	(1.41)*	(3.35)*	(0.60)*

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा और इसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठकों में अपनाया गया था।
2. सेबी (सूचीबद्ध एवं अन्य उद्घोषणा अनिवार्यताएं) विनियमन 2015 के अंतर्गत उद्योग विनियमन के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक निकास है। तिमाही एवं नौमाही परिणामों का पूरा फार्मेट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
3. वर्तमान में कम्पनी केवल एक सेमेंट में काम करती है-बनस्पति और रिफाइनड तेल। कम्पनी आईएमएफएल देशी शराब के लिए डिस्ट्रीलरी और बोटलिंग प्लांट, सन्डीला, जिला-हरदोई, उ.प्र. में स्थापित कर रही है जो कार्यान्वयन में है।
4. मॉड्यूल तिमाही के दौरान कम्पनी के वनस्पति/रिफाइनड तेल में कोई उद्वान नही हुआ है।
5. पिछले वर्षों के आंकड़े उन्हे वर्तमान अवधि के तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार
श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड ऐलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12 फरवरी, 2020
एस.ए. रहमान, पूर्णकालिक निदेशक

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यालय अधिवक्ता (दक्षिण) IV
ओ.एच.टी.ओ.आई.ए.फे-II, गौविन्दपुरी के सामने, नई दिल्ली-20
ईमेल: cesouthiv498@gmail.com टेली. 011-26388976
फ़ैस एन.आई.टी. सं. 101 ए-IV (2019-2020)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	ई-प्रापण संल्लुखन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण संल्लुखन के माध्यम से निविदा प्रारंभ की तिथि/समय
1.	ईई (दक्षिण) IV, एच-52 के अंतर्गत तुलगाबाद में एनबीसीटी विलिंग से A-200 ओखला फेज-1 तक पुराने सीआई वाटर लाइन 24 इंच डायामेटर 600 एमएम डायामेटर का विस्थापन।	2641162/-	2020-01-12	24.2.2020 के 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट <https://govtprocurement.delhi.gov.in> पर उपलब्ध है।
वी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
दिनांक: 31.01.2020/806
हस्ता./-
कार्यालय अधिवक्ता (दक्षिण) IV

ऋण वसूला आधिकारण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पासट टॉवर, माजरा सहायपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248174

प्रकाशन नोटिस ओओपी संख्या 232/2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के तहत-सेक्शन (4) संचालित उप नियम (द्वय) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (ओओपी) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना जारी की जाती है।
दिनांक: 03.02.2020

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स उडेड ट्रेडर्स एवं अन्य
सेवा में,
1. मैसर्स उडेड ट्रेडर्स, रंगोली कॉम्प्लेक्स, सिनेमा लाइन निकट केएमओयू बस स्टैंड, विधौरा-262501, उत्तराखण्ड। प्रोपराइटर जीशान अहमद पुत्र जलील अहमद।
2. जीशान अहमद पुत्र जलील अहमद, मकान नं० 12, ताकना खेत, न्यासिकोटि भवन, पोस्ट ऑफिस- विवाला, विधौरा, उत्तराखण्ड।
जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रु. 48,53,116/- की वसूली हेतु ओओपी सं 232/2019 संचालित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 30.01.2020 को सुचीबद्ध किया गया था।
यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तौरके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 18.03.2020 को 10.30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।
सूचित हों कि निर्धारित दिनांक एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की वृक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
दिनांक 03 फरवरी, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं भेरे हस्ताक्षर से जारी।
ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

मर्यादा कॉर्पोरेशन एण्डरप्राइजेज एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल), मधुवन टावर, ए-1, वी.एस. ब्रॉक, शकपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092
फोन: 91-11-49901667, वेब: www.maryadainvestment.in
(CIN: U65993DL1982PLC013738)

31 दिसम्बर, 2019 का समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडअलोन परिणामों		
		समाप्त तिमाही 31.12.2019	समाप्त नौ माही 31.12.2019	समाप्त वर्ष 31.12.2018
		अनकेंद्रित	अनकेंद्रित	अनकेंद्रित
1.	परिचालनों से कुल आय	631046.23	1776340.91	497671.23
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(73387.66)	(234879.21)	(101946.52)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(73387.66)	(234879.21)	(101946.52)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(73010.66)	(234502.21)	(102175.52)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से समित)	135188.58	397820.09	1688483.48
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	12450000.00	12450000.00	12450000.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंशकेंद्रित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	(0.06)	(0.19)	(0.08)
9.	मूल	(0.06)	(0.19)	(0.08)
10.	तल	(0.06)	(0.19)	(0.08)

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का समग्र प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का समग्र प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.mseil.in तथा कम्पनी की वेबसाइट www.maryadainvestment.in पर भी उपलब्ध है।

मर्यादा कॉर्पोरेशन एण्डरप्राइजेज एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
कुलदीप शर्मा
निदेशक
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 फरवरी, 2020
DIN: 06746475

COURT NOTICE
Criminal courts, Ludhiana
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMJC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on <http://ecourts.gov.in>
CNR NO: PBLD03-039479-2017
NEXT DATE: 18-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Mohd. Basip
Publication Issued To: Mohd. Basip Address-H. No. 27, Lalwara, Tehsil Bilar, Moradabad-244001 (Uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 18-03-2020 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, on your absence. For details login to <https://hghcourts.gov.in>
JMJC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh JMJC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on <http://ecourts.gov.in>
CASE NO: PBLD03-036678-2017
NEXT DATE: 26-03-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Devender
Notice To: Devender S/o Rampal Sai Colony, Urga Khari (19) The Panipat-132103 Haryana Punjab
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 26-03-2020 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to <https://hghcourts.gov.in>
JMJC LUDHIANA

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

प्रधान कार्यालय प्लॉट सं सी 24, जी ब्लॉक, पोस्ट बॉक्स सं 8121, बान्द्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
ई-मेल: fd@nabard.org | फोन नं. 022-2653-9468/9098/9078

डुलिकेट बाण्ड प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में

इसके माध्यम से यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित भविष्य निष्पत्ति बाण्ड प्रमाणपत्रों के धारकों ने अपने प्रमाणपत्र के खो जाने की सूचना दी है। नबार्ड यथासमय इन प्रमाणपत्रों के बदले भुगतान करना/ इनके बदले में डुलिकेट प्रमाणपत्र जारी करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति इन बाण्ड प्रमाणपत्रों पर चेह दाय्य रखता है तो इस सूचना के 21 दिनों के भीतर उम्मीदवार पर नबार्ड प्रधान कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे।

क्र. सं.	निवेशक का नाम	आबंटन की तारीख	फोलियो संख्या	बाण्डों की संख्या	मूल प्रमाणपत्र संख्या
1	अर्णव अग्रवाल (नाबालिग) विनय अग्रवाल (अभिभावक)	1-मार्च-09	1012002	25	20090300011312
2	परिजात हनोज पटेल (नाबालिग) हनोज किरोज पटेल (अभिभावक)	1-सितंबर-07	702004	2	20070900002106
3	परिजात हनोज पटेल (नाबालिग) हनोज किरोज पटेल (अभिभावक)	1-सितंबर-07	702005	2	20070900002107
4	हरेश प्रभुदास शाह	31-मार्च-09	1016039	68	20090300015869
5	लक्ष्मी मिश्रा (दिवांगत) राधेश मिश्रा (दावाकर्ता)	1-मार्च-08	1003211	71	20080300010334
6	अनिता	1-दिसंबर-07	1000761	2	20071200000794
7	राजेश खन्ना	31-मार्च-09	1015492	50	20090300015294
8	विजय सिंह सुरेश	1-नवंबर-08	1008079	58	20081100007186
9	संदीप सुरेश विजय	1-नवंबर-08	1008099	117	20081100007208
10	लक्षिता सुरेश कुमार	1-दिसंबर-07	1000759	2	20071200000792
11	आभा नरम भट्ट	1-मार्च-09	310360635	5	20090300012375
12	कल्पना दत्त भालेकर	31-मार्च-09	310408191	5	20090300014564
13	चंद्रकांत भट्ट	31-मार्च-09	310408930	5	20090300014498

स्थान: मुंबई
तारीख: 14.02.2020
उप महा प्रबंधक
नबार्ड
गॉव बदे दो देश बदे
www.nabard.org Taking Rural India >> Forward

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड निविदा सूचना विद्युत पारेषण खण्ड, बड़ौत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उकेन्द्रों पर पारेषण कार्य हेतु डीजल चलित वाहन जो 2016 से पूर्व मॉडल का ना हो 10 माह तक के लिए करार्ये पर रखने हेतु अनुभव्य डेकेदारों, ट्रेडर एजेंट से मुहरबन्द निविदाये दो भागों में जिसके प्रथम भाग में निर्धारित धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण जैसे जी.एस.टी. में पंजीकृत, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी का बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस आदि अभिलेख सम्बन्धित कार्य क्षेत्र का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं दूसरे भाग में दर्द तथा श्रौं होगी। निविदा दिनांक- 12.03.2020 की अपरान्त 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उरती दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने के दिन अवकाश होगा तो निविदाये अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी। 13/2019-20 उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड-द्वितीय, बड़ौत के प्रयोगार्थ 01 नग डीजल चलित वाहन चालक सहित 10 माह की अवधि तक के लिए करार्ये पर उपलब्ध कराने हेतु। 14/2019-20 उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड-द्वितीय, बड़ौत के प्रयोगार्थ 01 नग डीजल चलित वाहन चालक सहित 10 माह की अवधि तक के लिए करार्ये पर उपलब्ध कराने हेतु। अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षर के कार्यालय से निविदा प्रपत्र शुल्क रु.-590.00 (कर सहित) नकद, बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड बड़ौत के पक्ष में देय हो निविदा खुलने के दिनांक को छोड़कर प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि कोई निविदादात प्रपत्र डाक से भेजना चाहता है उसके लिये अलग से रु. 100.00 भेजने होंगे। डाक में होने वाली देरी के लिये विभाग जिम्मेदार न होगा। निविदा के साथ रु. 2000.00 (चार हजार) मात्र की धरोहर धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एफ.डी.आर./ सी.डी.आर. के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड, बड़ौत के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य है। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। धरोहर राशि रहित व सशर्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। "राष्ट्रिय में ऊर्जा बचाव" हस्ता./- अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड बड़ौत पत्रांक: 238/ वि.पा.ख. बड़ौत/ निविदा सूचना दिनांक: 13/02/2020

JITF INFRA LOGISTICS LIMITED

CIN - L60231UP2008PLC069245
Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

(₹ lacs)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated				
		Quarter Ended 31.12.2019 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2019 Unaudited	Year Ended 31.03.2019 Audited	Quarter Ended 31.12.2018 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2019 Unaudited	Nine Months Ended 31.03.2019 Unaudited	Quarter ended 31.12.2018 Unreviewed	
1	Total Income from operations	64.20	89.06	-	-	19,825.28	60,210.56	58,217.31	18,370.36
2	Net Profit/(Loss) for the year (before Tax and Exceptional Items)	4.25	17.30	23.14	4.42	(3,383.74)	(7,083.33)	(11,817.02)	(3,635.93)
3	Net Profit/(Loss) for the year before Tax (after Exceptional Items)	4.25	17.30	23.14	4.42	(3,383.74)	(7,083.33)	(11,817.02)	(3,635.93)
4	Net Profit/(Loss) for the year after Tax (after Exceptional Items)	3.23	12.36	17.93	3.28	(3,212.62)	(8,011.82)	(11,379.41)	(3,245.57)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	3.56	13.35	19.25	5.30	(3,200.13)	(7,974.04)	(11,233.76)	(3,210.17)
6	Equity Share Capital	514.07	514.07	514.07	514.07	514.07	514.07	514.07	514.07
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	31,437.66	31,437.66	31,437.66	31,437.66	31,437.66	31,437.66	31,437.66	31,437.66
8	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)								
	(1) Basic (₹)	0.01	0.05	0.07	0.01	(12.36)	(30.60)	(43.01)	(12.36)
	(2) Diluted (₹)	0.01	0.05	0.07	0.01	(12.36)	(30.60)	(43.01)	(12.36)

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/ annual financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months/annual financial results are available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.jinfra.com.

For and on behalf of Board of Directors of JITF Infra Logistics Limited
Sd/-
Amarendra Kumar Sinha
Whole Time Director
DIN: 08190565

Place: New Delhi
Date: February 13, 2020

QUASAR INDIA LIMITED

Regd. Off.: 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085
Mob: +91 9625304043, Email ID: quasaria123@gmail.com
Website: www.quasarindia.in, CIN: L67190DL1979PLC009555

Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results For the Quarter ended December 31, 2019

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending 31.12.2019 (Un-Audited)	Year to date Figures for nine months ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2018 (Un-Audited)
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	21.04	21.63	5.07
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.04	21.63	5.07
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.57	16.01	3.75
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	15.57	16.01	3.75
6.	Equity Share Capital	535.25	535.25	535.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	23.10	23.10	22.32
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.29	0.30	0.07
	2. Diluted :	0.29	0.30	0.07

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.quasarindia.in) and website of the stock Exchange(s) (www.bse-india.com).
2. The above result has been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 13th February, 2020.
3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of Quasar India Limited
Sd/-
Harish Kumar
(Director)
DIN: 02591858

Place: New Delhi
Date: 13.02.2020

जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन: L65910DL1990 PLC040705
पंजीकृत कार्यालय : 4, एमएमटीसी/ एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017
ईमेल: gopalbishtgcl@gmail.com | वेब: www.genesisfinance.net | दूरभाष: 011-26691132

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	562.14	1,555.40	270.89
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्) कुल लाभ/(हानि)	386.82	903.65	24.49
3.	अवधि हेतु (कर पश्चात्, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्) कुल लाभ/(हानि)	386.82	903.65	24.49
4.	कर पश्चा			